



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 माघ, 1941 (श०)

संख्या- 49 राँची, सोमवार,

27 जनवरी, 2020 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

अधिसूचना

24 जनवरी, 2020

संख्या-11/जनगणना (मार्गदर्शन) विविध-04/18-336/रा०,-- भारत सरकार के राजपत्र संख्या-110, दिनांक-09 जनवरी, 2020 द्वारा प्रकाशित गृह मंत्रालय (भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय) की अधिसूचना का०आ०-119(अ), नई दिल्ली, 07 जनवरी, 2020 के अनुसार-केन्द्रीय सरकार, जनगणना नियम, 1990 के नियम-6क के साथ पठित जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा-3 और धारा-17 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत की जनगणना-2021 से संबंधित मकान सूचीकरण का कार्य 01 अप्रैल, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 तक संपन्न कराने का निर्णय लिया गया है।

तदनुसार राज्य सरकार भी घोषणा करती है कि झारखण्ड राज्य में दिनांक-01 मई, 2020 से 14 जून, 2020 तक (45 दिनों में) भारत की जनगणना-2021 से संबंधित मकान सूचीकरण का कार्य संपन्न किया जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कमल किशोर सोन,
सरकार के सचिव-सह-
राज्य समन्वयक (जनगणना)